



© 2020 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Read This First

The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

पहले इसे पढ़ें



इस प्रिंटर के लिए इंक को सावधानी से संभाला जाना चाहिए। जब इंक के टैंक भरे हों या इंक रीफिल किए जा रहे हों तो इंक फैल सकती है। यदि इंक आपके कपड़ों या सामान पर लग जाती है, तो यह शायद निकलेगी नहीं।



Additional items may be included depending on the location. / स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटम शामिल किए जा सकते हैं।

Illustrations of the printer used in this manual are examples only. / इस मैनुअल में उपयोग किए जाने वाले प्रिंटर के चित्र केवल उदाहरण हैं।

1




3 Select the printer setup method. / प्रिंटर सेटअप विधि का चयन करें।

Do you have a smart device? / क्या आपके पास स्मार्ट डिवाइस है?

Yes. / हाँ।

No. / नहीं।

Go to section 2.
अनुभाग 2 पर जाएँ।



Hold down the button until it flashes. Then use your smart device to complete the rest of the process.
बटन को तब तक दबाए रखें जब तक वह फ्लैश न करे। फिर बाकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करें।

Epson Smart Panel



Install Epson Smart Panel.
This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.

Epson Smart Panel इंस्टॉल करें।
यह आपको प्रिंटर सेट करने में मदद करेगा, भले ही आप कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का उपयोग करें।

Epson Smart Panel ?


You can set up the printer while watching instructions on your smart device. By using the app, you can remotely control the printer on your smart device or perform more diverse printing through the app.

आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर निर्देश देखते हुए प्रिंटर सेट कर सकते हैं। ऐप का उपयोग करके, आप अपने स्मार्ट डिवाइस पर प्रिंटर को दूर से ही नियंत्रित कर सकते हैं या ऐप के माध्यम से अधिक विविध प्रकार की प्रिंटिंग कर सकते हैं।

2



Follow these instructions if you selected "No" in section 1-3.

यदि आपने अनुभाग 1-3 में "नहीं" का चयन किया है तो इन निर्देशों का पालन करें।




2 Select a language.

किसी भाषा का चयन करें।



Make sure that the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.
सुनिश्चित करें कि इंक टैंक का रंग उस इंक के रंग से मेल खाता है जिसे आप भरना चाहते हैं।

5




- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottles that came with your product.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.


- इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें; अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- अपने प्रोडक्ट के साथ आई इंक की बोतलों का उपयोग करें।
- Epson गैर-वास्तविक इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। गैर-वास्तविक इंक का उपयोग करने से क्षति हो सकती है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।

6

Check the upper line in the ink tank.
इंक टैंक में, इंक की ऊपरी लाइन की जाँच करें।



7 Inert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.
ऊपरी लाइन में स्याही भरने के लिए सीधे स्याही की बोतल को पोर्ट में डालें।




- When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts pouring and the flow stops automatically when the ink reaches the upper line.
- If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and reinsert it. However, do not reinsert the ink bottle when the ink has reached the upper line; otherwise ink may leak.
- Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.

- जब आप सही रंग के लिए फिलिंग पोर्ट में इंक की बोतल डालते हैं, तो इंक गिरना शुरू हो जाती है और जब इंक ऊपरी लाइन तक पहुँच जाती है, तो इंक का जाना अपने आप बंद हो जाती है।
- यदि इंक टैंक में जाना शुरू नहीं होती है, तो इंक की बोतल को निकालें और इसे फिर से डालें। हालाँकि, जब इंक शीर्ष लाइन पर पहुँच गई हो, तो इंक की बोतल को फिर से न डालें; अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- इंक की बोतल को डाल कर छोड़ें नहीं; अन्यथा बोतल क्षतिग्रस्त हो सकती है या इंक टपक सकती है।

8


When the ink reaches the upper line of the tank, pull out the bottle.
जब इंक टैंक की ऊपरी लाइन पर पहुँच जाती है, तो बोतल को बाहर निकाल दें।




If any ink remains in the ink bottle, tighten the cap and store the bottle upright for later use.

यदि इंक की बोतल में इंक बच जाती है, तो कैप को कस कर लगा दें और बाद में उपयोग के लिए बोतल को सीधी स्थिति में स्टोर करें।


9



10




11




12

When the message of seeing Start Here is displayed, press OK for 5 seconds.
यहाँ आरंभ करें, संदेश प्रदर्शित होने पर, 5 सेकंड के लिए ठीक दबाएँ।



13

Follow the on-screen instructions, and then tap Start to start charging ink. Charging ink takes about 7 minutes.
ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें, और फिर इंक को चार्ज करने के लिए आरंभ करें पर टैप करें। इंक चार्ज होने में लगभग 7 मिनट लगते हैं।



The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.

प्रारंभिक इंक की बोतलों का उपयोग आंशिक रूप से प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। हो सकता है कि बाद की इंक की बोतलों की तुलना में इन बोतलों से कम पेज प्रिंट हों।


14

When charging ink is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments. When the paper loading message is displayed, see step 15.

जब इंक चार्ज का काम पूरा हो जाता है, तो प्रिंट गुणवत्ता एडजस्टमेंट स्क्रीन दिखाई देती है। एडजस्टमेंट शुरू करने के लिए स्क्रीन के निर्देशों का पालन करें। पेपर लोड हो रहा है, संदेश प्रदर्शित होने पर, चरण 15 देखें।

15

Load A4 size paper in the paper cassette 2 with the printable side facing down.
कागज कैसट 2 में A4 साइज़ के पेपर को प्रिंट करने योग्य साइड को नीचे रखते हुए लोड करें।




16

Visit our website or use the CD supplied for Windows users to install software and configure the network. When this is complete, the printer is ready for use.

हमारी वेबसाइट पर जाएँ या Windows उपयोगकर्ताओं के लिए आपूर्ति की गई CD का उपयोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और नेटवर्क को कॉन्फिगर करने के लिए करें। जब यह पूरा हो जाता है, तब प्रिंटर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है।

<http://epson.sn>

Printing Photos / फोटो प्रिंट हो रहे हैं



2 Select **Print Photos > Print**.
फोटो प्रिंट करें > प्रिंट करें का चयन करें।



3 Select photos and then select **Next**.
फोटो चुनें और फिर आगे चुनें।

4 Make the print settings. Scroll down if necessary.
प्रिंट सेटिंग करें। यदि आवश्यक हो तो नीचे स्क्रॉल करें।





5 Tap to start printing.
प्रिंटिंग आरंभ करने के लिए टैप करें।

Clearing Paper Jam / पेपर जाम हटाना





From inside the printer / प्रिंटर के अंदर से



From the rear cover / पीछे के कवर से




From the paper cassette / पेपर कैसेट से



Checking Ink Levels and Refilling Ink / इंक के स्तर और इंक रीफिलिंग की जाँच करना

1 Check the ink levels. If any of the ink levels are below the lower line, see steps 2 to 4 in section 2 to refill the tank.
इंक के स्तर की जाँच करें। यदि इंक का कोई स्तर निचली रेखा से नीचे है, तो टैंक को फिर से भरने के लिए अनुभाग 2 चरण 2 से 4 तक देखें।



! To confirm the actual ink remaining, visually check the ink levels in all of the printer's tanks. Prolonged use of the printer when the ink level is below the lower line could damage the printer.

यह पुष्टि करने के लिए कि वास्तव में कितनी इंक शेष है, सभी प्रिंटर के टैंकों में इंक स्तर की जाँच करें। इंक का स्तर नीचे होने पर प्रिंटर का लंबे समय तक उपयोग करने से प्रिंटर को नुकसान पहुँच सकता है।

2 Follow the instructions on the LCD screen to reset the ink levels.
इंक का लेवल रीसेट करने के लिए, LCD स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।

Ink Bottle Codes / इंक बोतल कोड

For Europe / यूरोप के लिए

	BK	PB	C	M	Y	GY
ET-8550 Series ET-8500 Series						114
L8180 Series L8160 Series						115

For Australia and New Zealand


	BK	PB	C	M	Y	GY
						552

For Asia / एशिया के लिए

	BK	PB	C	M	Y	GY
	011					012

! Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties.
वास्तविक Epson इंक की जगह अन्य इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।

Troubleshooting / समस्या निवारण




See the online *User's Guide* for detailed information. This provides you with operating, safety, and troubleshooting instructions such as clearing paper jams or adjusting print quality. You can obtain the latest versions of all guides from the following website.

विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन **उपयोगकर्ता गाइड** देखें। यह आपको संचालन, सुरक्षा और समस्या निवारण जैसे कि पेपर जाम को साफ करने या प्रिंट की गुणवत्ता को समायोजित करने के निर्देश प्रदान करता है। आप निम्नलिखित वेबसाइट से सभी मार्गदर्शिकाओं के नवीनतम संस्करण प्राप्त कर सकते हैं।



<http://epson.sn>



For troubleshooting, press for assistance. This feature provides step by step and animation instructions for most issues such as adjusting print quality and loading paper.

समस्या निवारण के लिए, सहायता के लिए दबाएँ। यह सुविधा प्रिंट की गुणवत्ता और पेपर लोड होना समायोजित करने जैसी अधिकांश समस्याओं के लिए कदम दर कदम और एनिमेशन निर्देश प्रदान करती है।

Support / समर्थन






For outside Europe / यूरोप के बाहर के लिए

<http://support.epson.net/>

For Europe / यूरोप के लिए

<http://www.epson.eu/support>

Storing and Transporting / भंडारण और परिवहन



- Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
- The next time you use the printer, make sure you remove the tape securing the print head and set the transportation lock to the unlocked (Print) position.
- If print quality has declined the next time you print, clean and align the print head.

- कैप कसते समय सुनिश्चित करें कि इंक की बोतल को सीधा रखा गया हो। प्रिंटर और बोतल को प्लास्टिक के एक बैग में अलग-अलग रखें और प्रिंटर स्तर को संग्रहण और परिवहन को ध्यान में रखते हुए करें। अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- अगली बार जब आप प्रिंटर का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने प्रिंट हेड को सुरक्षित करने वाले टेप को हटा दिया है और परिवहन लॉक को अनलॉक (प्रिंट) स्थिति पर सेट कर दिया है।
- यदि अगली बार प्रिंट करने पर प्रिंट की गुणवत्ता में गिरावट आती है, तो आप प्रिंट हेड को साफ और संरेखित करें।

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-265-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

